

अंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य और बीमारियों से बचाव के बारे में चर्चा में असर है। एंटीऑक्सीडेंट का जिक्र आता है। यह शक्ति वाली पदार्थ, जो ज्ञानवारण हमारे द्वारा खाए जाने वाले ताजे फलों और सब्जियों से आते हैं, शरीर में अन्य अणुओं के ऑक्सीकरण को रोकते हैं (और कुछ मामलों में रोकते भी हैं), अच्छे स्वास्थ्य के लिए एंटीऑक्सीडेंट के लाभ बहुत महत्वपूर्ण हैं, बालोंकी वज्र सुख कणों को चुनावी नहीं दी जाती है, तो वे कई प्रकार की बीमारियों और पुरानी बीमारियों का बराग बन सकते हैं। मानव शरीर स्वास्थ्यकर रूप से सुख कणों और एंटीऑक्सीडेंट का उत्पादन करता है ताकि उनके हानिकारक प्रभावों का प्रतिकार किया जा सके। हालांकि, ज्ञानवारण मामलों में, सुख कणों की संख्या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट के अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, एंटीऑक्सीडेंट के बाहरी स्रोतों की निरंतर आपूर्ति आवश्यक है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर को नियन्त्रित और हायारन करने का उच्च स्तर के साथ अंटीऑक्सीडेंट के लिए यौगिक हैं जिनका उपयोग ऑक्सीकरण को रोकते कोशिका ऊतकों को कम करने के लिए किया जाता था। जब कोशिका ऊतकों में रसायन दवा यौगिकों के साथ ऑक्सीकरण से ऊजरे हैं, तो मुक्त कण उत्पन्न होते हैं, जो बदले में कोशिकाओं को तुकसान पहुंचाते हैं। प्राकृतिक यौगिकों ने इसे खाना के लिए अंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग करने के लिए अन्य अंटीऑक्सीडेंट शरीर के विभिन्न हिस्सों का लाभ प्रदान करते हैं। अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट शरीर के प्रकृति में एंटीऑक्सीडेंट के लिए काफ़ी विद्युत श्रृंखला पाई जाती है और बालोंकी वे बहुत विविध हैं, जिसका उत्पादन ए, सी, ई और खनिज जैसे ताच, जस्ता और सेलेनियम आदि के रूप में उपलब्ध हैं। एंटीऑक्सीडेंट ज्ञानवारण फलों, सब्जियों, दालों, सब्जत अनाज, मांस, पोल्डी, समुद्री भोजन, जड़ी-बूटियों औं मसालों में उपलब्ध हैं।

अलग-अलग एंटीऑक्सीडेंट के लिए जानियाँ जैसे ताच, जस्ता और सेलेनियम आदि के रूप में उपलब्ध हैं।

प्रकृति में एंटीऑक्सीडेंट के लिए एक विवरण श्रृंखला पाई जाती है और बालोंकी वे बहुत विविध हैं, जिसका उत्पादन ए, सी, ई और खनिज जैसे ताच, जस्ता और सेलेनियम आदि के रूप में उपलब्ध हैं। एंटीऑक्सीडेंट ज्ञानवारण फलों, सब्जियों, दालों, सब्जत अनाज, मांस, पोल्डी, समुद्री भोजन, जड़ी-बूटियों औं मसालों में उपलब्ध हैं।

एंटीऑक्सीडेंट की क्रिया का तंत्र

एंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार का रसायन है जो शरीर को कोशिकाओं को रोकते हैं। वे विभिन्न स्रोतों पर काम करते हैं, जैसे कोशिका कणों को समाप्त करके श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को शुरू होने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट को रोकना, ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करना जो श्रृंखला अनुक्रम को तोड़ देती हैं जो कोशिका क्षति का कारण बनती हैं (एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कटिरणीयों के लिए एक गोलीबाजी है), और इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।

निवारक एंटीऑक्सीडेंट

विविध आंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार का रसायन है जो शरीर को सुख देता है और अंटीऑक्सीडेंट से जुड़ी मुक्त कण क्रियाओं का अवधारणा करता है। वे विभिन्न स्रोतों पर काम करते हैं, जैसे कोशिका कणों को समाप्त करके श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को शुरू होने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट को रोकना, ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करना जो श्रृंखला अनुक्रम को तोड़ देती हैं जो कोशिका क्षति का कारण बनती हैं (एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कटिरणीयों के लिए एक गोलीबाजी है), और इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।

प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट

विविध आंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार का रसायन है जो शरीर को सुख देता है और अंटीऑक्सीडेंट से जुड़ी मुक्त कण क्रियाओं का अवधारणा करता है। वे विभिन्न स्रोतों पर काम करते हैं, जैसे कोशिका कणों को समाप्त करके श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को शुरू होने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट को रोकना, ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करना जो श्रृंखला अनुक्रम को तोड़ देती हैं जो कोशिका क्षति का कारण बनती हैं (एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कटिरणीयों के लिए एक गोलीबाजी है), और इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।

प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट

विविध आंटीऑक्सीडेंट एक प्रकार का रसायन है जो शरीर को सुख देता है और अंटीऑक्सीडेंट से जुड़ी

मुक्त कण क्रियाओं का अवधारणा करता है। वे विभिन्न स्रोतों पर काम करते हैं, जैसे कोशिका कणों को समाप्त करके श्रृंखला प्रतिक्रियाओं को शुरू होने से रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट को रोकना, ऐसी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करना जो श्रृंखला अनुक्रम को तोड़ देती हैं जो कोशिका क्षति का कारण बनती हैं (एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कटिरणीयों के लिए एक गोलीबाजी है), और इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।

विटामिन ए, सी, ई, और फाइबर

विटामिन ए, सी, ई, और फाइबर एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं। विटामिन ए, विटामिन सी, ई, और फाइबर एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।

प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ

विशिष्ट शारीरिक गतिविधियों के लिए, अंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।

प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ

विशिष्ट शारीरिक गतिविधियों के लिए, अंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।

प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ

विशिष्ट शारीरिक गतिविधियों के लिए, अंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।

प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ

विशिष्ट शारीरिक गतिविधियों के लिए, अंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।

प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ

विशिष्ट शारीरिक गतिविधियों के लिए, अंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।


प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ

विशिष्ट शारीरिक गतिविधियों के लिए, अंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।

प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियाँ

विशिष्ट शारीरिक गतिविधियों के लिए, अंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट को गति को रोकते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के जटिये शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाना संभव



जब त्वचा परावैंगनी प्रकाश के उच्च स्तर के संपर्क में आती है, तो फोटो-ऑक्सीडेंटिंग क्षति ऑक्सीजन की विभिन्न प्रजातियों (आरएस) की निरंतर उत्पन्न सुख कणों के गतन से प्रेरित होती है, जिसमें सिंगलेट ऑक्सीजन, सुपरऑक्साइड रेडिकल और पेरोक्साइड रेडिकल शामिल हैं। प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन के ए, रूप से सुख कणों के गतन से वहले उम्र बढ़ने, फोटोमार्फोटो-आरेन और खनिज जैसे ताच, जस्ता और सेलेनियम आदि के लिए उपलब्ध हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अंतर्वर्ती विकास के लिए उपयोग करते हैं।

एंटीऑक्सीडेंट के लिए उपयोग के लिए अन्य अं